

द्वारका इंटरनेशनल स्कूल

नमूना प्रश्न पत्र

अनुक्रमांक -----

वार्षिक परीक्षा (2019-20)

कक्षा- चौथी ,विषय- हिंदी

समय - 3 घंटे

पूर्णांक -80

निर्देश

- 1 इस प्रश्नपत्र में चार खंड हैं ।
- 2 प्रत्येक खंड का उत्तर देना अनिवार्य है ।
- 3 यथासंभव प्रश्नों के उत्तर क्रम से दें ।

खंड-क (अपठित गद्यांश)

प्रश्न 1) निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए - (10)

जीवन में मन को हल्का करने के लिए और स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान है । मनोरंजन का अर्थ है मन को प्रसन्न करना । छात्र पढ़-लिखकर ऊब जाते हैं । नौकरी-पेशा लोग फ़ाइलों के चक्कर में पड़कर प्रसन्नता खो देते हैं और मज़दूर शारीरिक श्रम करके चकनाचूर हो जाते हैं । ऐसी थकावट और उदासीनता को दूर करने के लिए मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान है । मनोरंजन के अनेक साधन हैं । बच्चे खेलकर अपना मन बहला सकते हैं । बड़े लोग टी.वी. देखकर, गाने सुनकर तथा अच्छी किताबें पढ़कर अपना मन बहला लेते हैं । लेकिन हम सभी को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम इन साधनों के गुलाम न बन जाएँ । नहीं तो, ये हमारे जीवन के लिए बाधक बन जाएँगे । मनोरंजन जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व है । परंतु, यदि किसी साधन से मनोरंजन भी हो जाए और वह अन्य लाभ भी दे सके तो उससे उत्तम मनोरंजन कोई नहीं ।

- क) मनोरंजन का अर्थ लिखिए तथा यह हमारे जीवन में किस काम आता है ? 2
- ख) बड़े लोग किस प्रकार अपना मनोरंजन करते हैं ? 2
- ग) मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करके किसे दूर किया जा सकता है ? 2
- घ) हमें मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 2
- ङ) गद्यांश में से 'विद्यार्थी' का पर्यायवाची छाँटकर लिखिए । 1
- च) 'जीवन' शब्द से वाक्य बनाइए । 1

खंड-ख

प्रश्न 2) निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को छाँटकर लिखिए - (2)

- क) उसका नाम क्या है ?
- ख) मुझे वह खिलौना चाहिए ।

प्रश्न 3) दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए - (3)

- क) ----- दिल्ली से कब आए ? (मैं / आप)
- ख) ----- पिताजी अध्यापक हैं । (उसके / अपने)

ग) हमें ----- काम स्वयं करना चाहिए । (अपना / उसका)

प्रश्न 4) निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य शब्द चुनकर लिखिए - (2)

क) मीना को पाँच सेब चाहिए ।

ख) अकबर होशियार बालक है ।

प्रश्न 5) निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण शब्दों के भेद बताइए- (3)

क) मैंने जहरीला साँप देखा ।

ख) कमरे में दो कुर्सियाँ रखी हैं ।

ग) राहुल को थोड़ा पानी दे दो ।

प्रश्न 6) निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए - (3)

क) वह बाँसुरी बजा रहा है ।

ख) बच्चा रोता है ।

ग) नमिता दूध पी रही है ।

प्रश्न 7) कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए - (2)

क) माली पौधे ----- रहा है । (लगाना)

ख) राम ने कहानी ----- । (सुन)

प्रश्न 8) निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम-चिह्न लगाइए - (2)

क) मुझे पुस्तकें पेंसिल रबर और कापियाँ चाहिए

ख) यहाँ कौन चिल्ला रहा है

प्रश्न 9) निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए - (2)

क) आपको काम हो जाएगा ।

ख) वह खाना खा रहे हैं ।

प्रश्न 10) निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए - (2)

क) धनयवाद

ख) अतिथी

प्रश्न 11) निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अनेकार्थी लिखिए - (3)

क) पृष्ठ

ख) कुल

ग) वर्ण

प्रश्न 12) निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए - (3)

क) उल्लू बनाना

ख) कान भरना

ग) लाल-पीला होना

प्रश्न 13) निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए - (3)

क) जिसके नीचे रेखा खींची गई हो

ख) जो कभी न मरे

ग) जो सबका प्रिय हो

खंड-ग

प्रश्न 14) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए - (3)

क) अनिष्ट

ख) दरिद्र

ग) कायर

प्रश्न 15) निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए - (2)

क) सहमत

ख) अभ्यास

प्रश्न 16) निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए - (2X10)

क) यमराज का मित्र किसे और क्यों कहा गया है ?

ख) चित्रकार ने शेर को क्या जवाब दिया ?

ग) चित्रकार ने किस प्रकार सूझबूझ का परिचय दिया ?

घ) हमें आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए ?

ङ) हमारा जीवन व्यर्थ क्यों चला जा रहा है ?

च) गरीब आदमी एक धनी व्यापारी कैसे बन गया ?

छ) भाग्य को गरीब आदमी पर दया क्यों आ गई ?

ज) धौम्य ऋषि के लिए आरुणि को आज्ञा देने में क्यों संकोच हो रहा था ?

झ) राजसभा में मोम का सिंह बनाकर किसने और क्यों भेजा था ?

ञ) बालक ने सिंह को पिंजरे में से किस प्रकार बाहर निकाला ?

ट) आचार्य ने बालक से गाय क्यों माँगी ?

ठ) दादी माँ ने नीम को प्रकृति का अमूल्य वरदान क्यों कहा है ?

खंड-घ

प्रश्न 17) निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए - (5)

ऐसे मनाया मैंने अपना जन्मदिन

- संकेत बिंदु
- कब आता है ? *किसे बुलाया? * कैसे मनाया ?

मेरा प्रिय खिलौना

- संकेत बिंदु

खिलौने का नाम * किसने व कब दिया * कैसा है * देखकर खुशी होना

प्रश्न 18) निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर विषय पर पत्र लिखिए : (5)

क) पिकनिक पर जाने की अनुमति माँगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए

ख) अपने नए घर के बारे बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए ।

प्रश्न 19) दिए गए चित्र का वर्णन 40-50 शब्दों में कीजिए -

(5)

